



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 4—सितम्बर 10, 2010 (भाद्रपद 13, 1932)

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 4—SEPTEMBER 10, 2010 (BHADRA 13, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110101, दिनांक 5 अगस्त 2010

सं. ए-22012/4/2010-पीएमई--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव श्री एस. वी. पिल्लई को दिनांक 1 जुलाई, 2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक रु. 7,600/- के ग्रेड पे के साथ पे-बैंड-3 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की अध्यक्ष के वैयक्तिक स्टाफ में विशेष कार्याधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

2. श्री एस. वी. पिल्लई की नियुक्ति राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की अध्यक्ष के कार्यकाल तक और उनके विवकाधीन होगी।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 2010

सं. आरएस/3/3/2010/73-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत श्री विनय कुमार, कनिष्ठ संसदीय वृत्त-लेखक को 3 अगस्त 2010 के पूर्वाह्न से, आगामी ओदशों तक, इस

सचिवालय में नियमित आधार पर 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संसदीय वृत्त-लेखक के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 12 अगस्त 2010

सं. आरएस/6/4/2010/75-कार्मिक--30 जून, 2010 से राज्य सभा के सदस्य के रूप में श्री एम. वेंकैया नायडु का कार्यकाल समाप्त हो जाने के परिणामस्वरूप श्री के. एस. सी. एस. वी. पी. गांधी, जिन्हें गृह कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष के वैयक्तिक स्टाफ में सह-पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, की प्रतिनियुक्ति की अवधि, उन्हें 1 जुलाई, 2010 से 15 दिनों की परिसमापन अवधि स्वीकृत करते हुए, 15 जुलाई, 2010 के अपराह्न से समाप्त की जाती है।

2. परिसमापन अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् श्री के. एस. सी. एस. वी. पी. गांधी को 16 जुलाई, 2010 से 21 जुलाई, 2010 तक 6 दिनों की अर्जित छुट्टी स्वीकृत की जाती है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस/6/4/2010/76-कार्मिक--भारत संचार निगम लिमिटेड में उप प्रबंधक श्री के. एस. सी. एस. वी. पी. गांधी को 22 जुलाई, 2010 के पूर्वा. से आगामी आदेशों तक गृह कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष (श्री एम. वेंकैया नायडु) के वैयक्तिक स्टाफ में राज्य सभा सचिवालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री के. एस. सी. एस. वी. पी. गांधी की नियुक्ति गृह कार्य संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष की पदावधि के साथ ही समाप्त हो जाएगी और उनके विवेकाधीन होगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 17 अगस्त 2010

सं. आरएस/6/1/2010/77-कार्मिक--इस सचिवालय की अधिसूचना सं. आरएस/6/1/2009/56-कार्मिक, दिनांक 3 अगस्त, 2009 के क्रम में, राज्य सभा के माननीय सभापति के वैयक्तिक स्टाफ में निजी सचिव के सावधिक पद पर श्री एस. एम. अशरफ की नियुक्ति की अवधि 1 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न से एक और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560231, दिनांक 26 जुलाई 2010

सं. 5/1(1)/2010-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में श्रीमती अंजना आशिष को क्रय एवं भंडार अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से दिनांक 08.03.2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2010-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप से प्रत्येक के सामने दी गई दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं:--

क्रम नाम	नियुक्ति की तिथि
सं.	
श्री/श्रीमती/कु.	
1. चेतन कुमार	08.02.2010
2. शरणप्पा एस.	08.03.2010
3. राजराजन डी.	05.03.2010
4. एम. मोहम्मद नागूर मीरन	10.06.2010

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. 5/1(1)/2010-I--अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एस. सी. के पद पर अस्थायी रूप से दिनांक 05.02.2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं:--

क्रम नाम
सं.

श्री/श्रीमती/कु.

- विजेश टी. वी.
- पोट्टेटी कोटेश्वर रेड्डी
- ज़ेवियर रीनाल्ड
- बौल चन्द्र गरई
- रूपेश
- रंजित वी.
- अवधेश सिंह
- प्रवीण कुमार
- एम. डी. तफसिर
- रिस्सेन आल्फोन्सो जोसेफ
- सनत कुमार पांडा
- नागा मंजूशा जे.
- किन्शुक गुप्ता
- आर्षिता एम. एस.
- विश्व प्रकाश ए.
- पुराणी एम.
- सबरी श्रीकुमार
- अमित कुमार पाटील
- अविजित मित्रा
- सिद्धार्थ जैन डी. एन.
- राकेश रचरला
- राज अलेग्जांडर वाई.
- फणि दिनकर बी. एस.
- रजत शुर्व प्रमाणिक
- प्रकाश के. ओ.
- राजीव भाटिया

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(2)/2010-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर के निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियर ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप उनके सामने दिये गये पद से उल्लिखित दिनांक के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्रम सं.	नाम	पद	कार्यभार छोड़ने की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	प्रवीण पटेल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	30.04.2010
2.	ऐनिक बी. व्यास	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	30.04.2010

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सेवा से तकनीकी त्यागपत्र दिनांक 20.05.2010 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(2)/2010-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में श्री मोहनकृष्णन जी, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी. ने स्वैच्छिक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.12.2009 के पूर्वाह्न से कार्यभार छोड़ दिया है।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

दिनांक 17 अगस्त 2010

सं. 11/1(1)/2010-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग, बेंगलूर में श्री सी. एच. बसवराजु को उप सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 22.03.2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त 2010

सं. एफ-6(2135)/2010-प्रशा. I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 जुलाई, 2010 के पत्र सं. 4/28/2010-ईओ(एसएम.1) के अनुसरण में श्री अरविंद कुमार चुघ, आईएस (झा.: 74) ने सचिव, जनजातीय मामले मंत्रालय, के रूप में अपना नया कार्यभार ग्रहण करने के लिए 4 अगस्त, 2010 पूर्वाह्न से योजना आयोग में प्रधान सलाहकार के पद का अपना कार्यभार त्याग दिया है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 10 अगस्त 2010

सं. एफ-6(2136)/2010-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्रीमती जीवन शर्मा को, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06.08.2010 के कार्यालय आदेश सं. 4/3/2010-सीएस-1(डी) के तहत वर्ष 2010 (भाग) हेतु सीएसएस की चयन ग्रेड (उप सचिव) चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, उनकी योजना आयोग में 09.08.2010 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर उप सचिव के पद पर सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 2010

सं. ए-32013/2/2007-वि.सा.प्र.(प्र.)--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री जुगल किशोर, सहायक संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को तारीख

सं. 5/1(2)/2010-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में डॉ. नवीन के. को चिकित्सा अधिकारी-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक 11.02.2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(2)/2010-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में श्री के. आर. भरत, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 31.03.2010 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(2)/2010-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में डॉ. सुधाकर सुभुधी, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. का

9 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न से, अगला आदेश होने तक, उक्त प्रकाशन में वेतन बैंड-3, 15,600--39,100/- रुपए जमा ग्रेड वेतन 7,600/- रुपए के वेतनमान में प्रोन्नति के आधार पर स्थानापन्न संपादक नियुक्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, निदेशक

सं. ए-32013/2/2007-वि.सा.प्र.(प्र.)--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री एम. सी. पाण्डेय, सहायक संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को तारीख 9 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न से, अगला आदेश होने तक, उक्त प्रकाशन में वेतन बैंड-3, 15,600--39,100/- रुपए जमा ग्रेड वेतन 7,600/- रुपए के वेतनमान में प्रोन्नति के आधार पर स्थानापन्न संपादक नियुक्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, निदेशक

दिनांक 19 अगस्त 2010

सं. ए-32013/1/2010-वि.सा.प्र.(प्र.)--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर असलम खान, उप संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को तारीख 9 अगस्त, 2010, के पूर्वाह्न से, अगला आदेश होने तक, उक्त प्रकाशन में वेतन बैंड-3, 15,600--39,100/- रुपए जमा ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए के वेतनमान में प्रोन्नति के आधार पर स्थानापन्न सहायक संपादक नियुक्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, निदेशक

सं. ए-32013/1/2010-वि.सा.प्र.(प्र.)--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री अविनाश शुक्ला, उप संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को तारीख 9 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक उक्त प्रकाशन में वेतन बैंड-3, 15,600--39,100/- रुपए जमा ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए के वेतनमान में प्रोन्नति के आधार पर स्थानापन्न सहायक संपादक नियुक्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त 2010

सं. ए-12025/3/2009-प्रशा.-I (वि.वि.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खंड में अधीक्षक (अनुवाद) के पद पर कार्यरत श्री सुनील रंजन को, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खंड में सहायक विधायी परामर्शी (हिन्दी) के पद पर रुपए 15,600--39,100/- के वेतन बैंड + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में, दिनांक 09 अगस्त, 2010 की पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए और अगले आदेशों तक, तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से

कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री सुनील रंजन को सहायक विधायी परामर्शी (हिन्दी) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एम. आर. बीर, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2010

सं. आई-18012/4/2008-आईपीएस-1--भारतीय पुलिस सेवा (परिबीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश संवर्ग को आर्बिट्रट भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	भा.पु.से. में स्थायी किए जाने की तारीख
	सर्वश्री	
1.	शीतला प्रसाद मिश्रा	30.09.1999
2.	मुकेश शुक्ला	30.09.1999
3.	राजेन्द्र प्रसाद सिंह	30.09.1999
4.	योगेन्द्र कुमार पचौरी	30.09.1999
5.	देवेन्द्र दत्त मिश्रा	30.09.1999
6.	राज सिंह राठौर	08.06.2001
7.	उमा नाथ सिंह	08.06.2001
8.	प्रदीप चन्द्रा	08.06.2001
9.	अनिल कुमार	08.06.2001
10.	के. एस. पिप्पिल	08.06.2001
11.	श्योदान सिंह	08.06.2001
12.	श्रीमती पूर्णमा सिंह	08.06.2001
13.	अक्षय कुमार सिंह	08.06.2001
14.	शुभ नारायण उपाध्याय	24.05.2003

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त 2010

2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बिहार और उत्तराखण्ड सरकारों की सहमति से डॉ. नीरज खरवाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बीएच : 07) को सुश्री ज्योति यादव, भारतीय प्रशासनिक सेवा (यूके : 09) से उनका विवाह हो जाने के आधार पर बिहार संवर्ग से उत्तराखण्ड संवर्ग में एतद्वारा स्थानान्तरित करती हैं।

आर. के. गुप्ता, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. 76 (फा. सं. ए-19012/10/2010-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा के श्री राजेश नंदन श्रीवास्तव (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 93) को दिनांक 29.07.2010 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 2 अगस्त 2010

सं. 77 (फा. सं. ए-38013/7/2010-प्रशा.-1)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश सक्सेना अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 जुलाई, 2010 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 78 (फा. सं. ए-38013/6/2010-प्रशा.-1)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री एस. एस. निरवान अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 जुलाई, 2010 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 5 अगस्त 2010

सं. 79 (फा. सं. ए-38013/9/2010-प्रशा.-1)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्रीमती मंजू चन्द्रा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अधीन दिनांक 2 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 6 अगस्त 2010

सं. 80 (फा. सं. ए-19012/11/2010-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री अंशु प्रकाश, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 94) को

दिनांक 29.07.2010 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त 2010

सं. 26/1/2008-प्रशा.-1ग--श्री ए. टी. थामस, उप रजिस्ट्रार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-ए (1) के अन्तर्गत दिनांक 3 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

विक्टर जेम्स, अवर सचिव

दिनांक 16 अगस्त 2010

सं. ए-38013/1/2010-प्रशा.-1ग(सीस्टेट)--श्रीमती क्रान्ति राजेश राठी, सहायक रजिस्ट्रार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-ए (1) के अन्तर्गत दिनांक 6 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

विक्टर जेम्स, अवर सचिव

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 2010

सं. 2010 का 9 (फा. सं. ए-32012/1/2010-प्रशा.-VI)--इस विभाग के दिनांक 19 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. 14 (फा. सं. 32012/1/2005-प्रशा.-VI) में आंशिक संशोधन करते हुए श्री प्रदीप कुमार सिंह (00707) को एतद्वारा 1.1.2006 की बजाए 01.01.2005 से 10,000-325-15,200/- रुपये (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में आयकर उपायुक्त (वरिष्ठ वेतनमान) के रूप में कार्य करने के लिए पदोन्नत किया जाता है।

2. इसे ओ.ए. सं. 2008 का 2358 में दिनांक 30.6.2009 के माननीय कैट, प्रधान बेंच, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में जारी किया जाता है। श्री प्रदीप कुमार सिंह की पदोन्नति राजस्व विभाग (के.प्र.क. बो.) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष दायर रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2010

सं. ए-19011/7/2010-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, श्री बिमल जुल्का, भा.प्र.से. (म.प्र.-79) को 12 जुलाई, 2010 के अपराह्न से अगले आदेशों

तक अपर सचिव के रैंक एवं वेतनमान में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में मुद्रा निदेशालय में महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

दिनांक 11 अगस्त 2010

सं. ए-19011/18/2010-प्रशा.-2--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में श्री विजय सिंह चौहान, भारतीय राजस्व सेवा (सीएंडसीई : 92) को 9 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

सं. ए-12011/07/2008-प्रशा-2--राष्ट्रपति, कृषि मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के नियमित निजी सचिव श्री गोपीलाल मन्नेवर को 15,600—39,100/- + 6,600/- रु. (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड-3 में 30.07.2010 (अपराह्न) से 31.12.2010 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर इस पद को भरे जाने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में पूर्णतया तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री गोपीलाल मन्नेवर की तदर्थ पदोन्नति प्रधान निजी सचिव के पद पर अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा उस पर वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2010

सं. 7/1/2009-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री हरचरण सिंह को दिनांक 16 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण-II, चण्डीगढ़ के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

अमरीक सिंह, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त 2010

सं. ए-12026/8/2010-प्रशा.-I--वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में निदेशक श्री एम. एम. चोपड़ा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के

पश्चात् 31 जुलाई, 2010 को अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

एस. कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 2010

सं. ए-11019/2/2010-ई.जी.--राष्ट्रपति, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के श्री सूर्यप्रसाद परशुराम रावल को दिनांक 05.07.2010 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 15,600—39,100/- रुपए (ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए) के वेतनमान में महालेखाकार का कार्यालय (ए. एंड ई.), गुजरात, राजकोट में प्रतिनियुक्ति आधार पर कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

अनिल शर्मा, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 अगस्त 2010

सं. पीएफजी (969)/10-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, कारपोरेट कार्य मंत्रालय में डॉ. टी. वी. सोमनाथन, आईएएस (तमिलनाडु : 87) को पे बैंड रुपये 37,400--67,000/- (पे बैंड-4) तथा ग्रेड पे रुपये 10,000/- में दिनांक 6 अगस्त, 2010 से पांच वर्षों की अवधि हेतु दिनांक 6 अगस्त, 2015 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव, भारत सरकार नियुक्त करते हैं।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 2010

सं. 32 (ए-19011/23/2010-ई-I)--राष्ट्रपति द्वारा श्री जे. एस. दीपक, भा. प्र. से. (यूपी : 82) को दिनांक 3 अगस्त, 2010 के अपराह्न से उनके केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति सेवाकाल की 5 वर्ष की अवधि अर्थात् 08.04.2013 तक की शेष अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, पार्ष्विक स्थानांतरण आधार पर 10,000/- रुपए ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- रुपए (पीबी : 4) के वेतन बैंड में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

सं. 33 (ए-19011/24/2010-ई-I)--राष्ट्रपति द्वारा श्री रजत सचर को दिनांक 2 अगस्त, 2010, अपराह्न से अगला आदेश होने तक वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में 8,700/- रुपए ग्रेड वेतन सहित

37,400--6,700/- रुपए (वेतन बैंड: 4) के वेतन बैंड में अपर आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2010

मिसिल सं. ए-12011/2/2010-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 जुलाई, 2010 के आदेश संख्या 3/4/2010-सी एस-1 (डी) के अनुसरण में इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव श्री टी. के. मुरगन को 19 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले विभाग में 37,400--67,000/- रुपए के वेतन बैंड (पी बी-4) और 8,700/- रुपए के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2010

सं. ए-12025/09/2009-सीएचएस-VI--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. कुलदीप सिंह को वेतन बैंड-3 रुपए 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में 7 जनवरी, 2010 पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक दंत सर्जन के रूप में परीक्षा पर नियुक्त करती हैं और केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली में दंत सर्जन के रूप में तैनात करती हैं।

पवन कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त 2010

सं. ए-12025/16/2008-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. विजय कुमार चौधरी को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जन स्वास्थ्य उपसंवर्ग में जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ ग्रेड-II (कनिष्ठ वेतनमान) के पद पर 05.03.2009 से अगले आदेशों तक, परीक्षा पर, नियुक्त करती हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 20 अगस्त 2010

सं. ए-12025/04/2008-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. राकेश एन. देसाई को 28.05.2009 के

पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 15,600--39,100/- रु. + 5,400/- रु. (पी बी-3) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. राकेश एन. देसाई को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डॉ. राकेश एन. देसाई नियुक्ति की तिथि से 2 वर्षों तक परीक्षा पर रहेंगे।

ओ. पी. शर्मा, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त 2010

सं. 12-9/2009-एम एण्ड टी (प्रशा.)--राष्ट्रपति, श्री एम. के. विश्वकर्मा, श्री सी. आर. लोही और श्री ए. एन. मेशराम को 23.07.2010 से पे-बैंड-3 (15,600--39,100/- रु) और ग्रेड पे रुपये 7,600/- में नियमित आधार पर प्रोन्नति द्वारा फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में निदेशक (जी. सी. एस. समूह 'क' राजपत्रित गैर मंत्रालयी) के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी. बी. भगत, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 18 अगस्त 2010

सं. ए-18014/04/2010-प्रशा.--राजभाषा विभाग के दिनांक 25 जून, 2010 के कार्यालय आदेश सं. 5/1/2010 रा. भा. (सेवा) के अनुसरण में, श्री एम. के. गोयल, सहायक निदेशक (रा. भा.), जिन्हें योजना आयोग से स्थानांतरित किया गया है, ने भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में 6 जुलाई, 2010 से वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपये) और ग्रेड वेतन 5,400/- रुपये में सहायक निदेशक (रा. भा.) का पदभार ग्रहण कर लिया है।

अनूप कुमार, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त 2010

सं. पीएफ/ए/31-प्रशा.--राष्ट्रपति श्री अनिल कुमार वर्मा को, दिनांक 3 अगस्त, 2010 के डीओपीटी के पत्र सं. 09.07.2009-सीएस. 1 (घ) के द्वारा उनके नाम को वर्ष 2003 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की चयन श्रेणी में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, नियमित आधार पर 1 जुलाई, 2003 से उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। श्री अनिल कुमार वर्मा 30 अप्रैल, 2007 को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

राजीव सबरवाल, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 अगस्त 2010

सं. 6289/एनआईसी/2010-प्रशा. II -- महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा सुश्री मोनालिसा दास, कर्मचारी कोड सं. 6289 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, असम राज्य एकक, गुवाहाटी में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड-"एस बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 12 जुलाई, 2010 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप निदेशक (प्रशा. II)

दिनांक 18 अगस्त 2010

सं. 2274/एनआईसी/2008-प्रशा. II -- राष्ट्रपति, एतद्वारा श्रीमती नम्रता गुप्ता, (कर्मचारी कोड सं. 2274) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, मुख्यालय, नई दिल्ली में दिनांक 01.02.2000 से 30.05.2008 तक की उनकी अनुपस्थिति की अवधि को अकार्य दिवस मानते हुए वैज्ञानिक "बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 30 मई, 2008 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप निदेशक (प्रशा. II)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त 2010

सं. ईआरबी-1/2007/10/4 -- श्री ए. के. गोयल, सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन सचिव 09.08.2010 (पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. के. गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

पोत-परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त 2010

सं. एल एच-21013/02/2009-एस एल-दीप-स्तंभ और दीप-पोत-महानिदेशालय में कार्यकारी अधिकारी के पद पर चयन के बाद, श्री विकास श्रीवास्तव, सहायक, पोत परिवहन मंत्रालय को दीप-स्तंभ और दीप-पोत महानिदेशालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 6 नवम्बर, 2009 से, अगले आदेशों तक पीबी-2 में 9,300--34,800/- रुपए + ग्रेड पे 4,600/- के वेतनमान में कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एस. के. गोस्वामी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 2010

सं. ए-12023/01/2009-स्था.--राष्ट्रपति महोदय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 23/4/2010-ई.ओ. (एन. एम.-1) दिनांक 21.07.2010 और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-19011/02/2009-पी. II दिनांक 30.07.2010, के अनुसरण में श्री एन. मुरुगनन्दम, आईएस (टी. एन-1991), को माननीय पोत परिवहन मंत्री (श्री जी. के. वासन) के निजी सचिव के रूप में वेतनमान पीबी-4 के पे-बैंड: रु. 37,400--67,000/- + रु. 8,700/- (ग्रेड पे) दिनांक 2 अगस्त 2010, जब तक वह माननीय मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करेंगे अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं। केन्द्र में उनका कार्यकाल 01.10.2009 से प्रभावी होगा।

अभीजीत बख्शी, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त 2010

सं. ए-19011/01/2007-ई.-1--सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव श्री ब्रह्म दत्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा (कर्नाटक : 73), अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से दिनांक 31.07.2010 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 अगस्त 2010

सं. 02/03/2009-प्रशा.-1--राष्ट्रपति द्वारा श्री अनिन्दया सुन्दर परिरा को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में 15,600 से 39,100/- रु. के पे बैंड + 5,400/- रु. के ग्रेड पे में दिनांक 12 अगस्त, 2010 से और अगले आदेशों तक अस्थाई तौर पर वैज्ञानिक बी के पद पर नियुक्त किया जाता है।

सुरेश कुमार, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त 2010

सं. 12/2010 (फाइल सं. 22/672/2010-प्रशा.)--राष्ट्रपति, श्री जी. मोहन कुमार, आई.एस. (ओआर:79) को 67,000/- (वार्षिक 3% वेतन वृद्धि के साथ) 79,000/- के वेतन के वेतनमान में 16.08.2010 के पूर्वाह्न से जल संसाधन मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. के. पालीवाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त 2010

सं. 13/2010 [फाइल सं. 25/02/(12)/2009-स्था-1]--इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2008 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने

श्री कुलदीप कुमार सिंह को दिनांक 02.06.2010 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर वेतन बैंड-3 में रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री कुलदीप कुमार सिंह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2010

सं. 03/01/2010-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.02.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/1/2010-सीएस. I (एस) के द्वारा वर्ष 2006 के वरिष्ठता कोटे के तहत अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में उनके नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग में उनके नामांकन के परिणामस्वरूप इस मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को, जो वर्तमान में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, को दिनांक 01.07.2006 से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करती हैं तथा वे अपने वर्तमान स्थान पर कार्य करते रहेंगे जैसा कि प्रत्येक के समक्ष उल्लिखित है :--

क्र. सं.	नाम	कार्यालय जहां नियुक्ति हुई
1.	श्री कमलेश कुमार	आकाशवाणी : महानिदेशालय
2.	श्री करण सिंह	दूरदर्शन महानिदेशालय

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. 5/03/2007-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, श्री के. एस. रेजीमोन, आई. एस.एस (98) को पे बैंड-3 में 7,600/- रुपए की ग्रेड पे के साथ रु. 15,600--39,100/- के वेतनमान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत दिनांक 09.07.2010 के अपराह्न से चार वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उप सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त 2010

सं. 12025/01/2007-प्रशा.-I(खण्ड-II)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अधोलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों, ग्रेड-I (अवर सचिव) को पूर्णतः तदर्थ आधार पर और अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	सीएसएल संख्या	अवर सचिव के रूप में नियुक्त होने की तिथि (तदर्थ)
1.	श्री एन. श्री कुमार	6295	09.06.2010 (पूर्वाह्न)
2.	श्री अंजनी कुमार ठाकुर	6298	30.07.2010 (अपराह्न)
3.	श्रीमती निशा गौड़	6391	03.06.2010 (पूर्वाह्न)
4.	श्री प्रभाकर मिश्रा	6520	07.06.2010 (पूर्वाह्न)
5.	श्री नरेश जायसवाल	6672	08.06.2010 (पूर्वाह्न)
6.	श्री जोहन टोप्पो	6754	07.06.2010 (पूर्वाह्न)

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 5th August 2010

No. A. 22012/4/2010-PME—The President is pleased to appoint Shri S.V. Pillai, Under Secretary of CSS, as Officer on Special Duty in PB-3 with Grade Pay of Rs. 7,600/- on the personal staff of Chairperson, National Advisory Council with effect from the forenoon of 1st July, 2010.

2. The appointment of Sh. S.V. Pillai is co-terminus with the tenure of and at the discretion of Chairperson, National Advisory Council.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 6th August 2010

No. RS. 3/3/2010/73-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Vinay Kumar, Junior Parliamentary Reporter in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Parliamentary Reporter in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- plus usual allowances as admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 3rd August, 2010 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy Director

The 12th August 2010

No. RS/6/4/2010/75-Perl.—Consequent upon the expiry of the term of Shri M. Venkaiah Naidu as Member of the Rajya Sabha w.e.f. 30th June, 2010, the period of deputation of Shri K.S.C.S.V.P. Gandhi who had been appointed as Senior Private Secretary on co-terminus basis in his personal staff in the capacity as Chairman, Committee on Home Affairs stand terminated w.e.f. the afternoon of 15th July, 2010, after granting him a winding up period of 15 days w.e.f. 1st July, 2010.

2. On expiry of the winding up period, Shri K.S.C.S.V.P. Gandhi is granted Earned Leave for 6 days from 16th July, 2010 to 21st July, 2010.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

No. RS/6/4/2010/76-Perl.—Shri K.S.C.S.V.P. Gandhi, Deputy Manager in Bharat Sanchar Nigam Limited is appointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- in the personal staff of Chairman, Committee on Home Affairs (Shri M. Venkaiah Naidu) with effect from the forenoon of 22nd July, 2010, until further orders.

2. The appointment of Shri K.S.C.S.V.P. Gandhi is co-terminus with the tenure of the present Chairman, Committee on Home Affairs and will be at his discretion.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

The 17th August 2010

No. RS/6/1/2010/77-Perl.—In continuation of this Secretariat's Notification No. RS/6/1/2009/56-Perl. dated the 3rd August, 2009, the term of appointment of Shri S.M. Ashraf against the tenure post of Private Secretary in the personal staff of the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been further extended for a period of one year with effect from the forenoon of 1st August, 2010.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 26th July 2010

No. 5/1(1)/2010-I—The President is pleased to appoint Smt. Anjana Ashish as Purchase & Stores Officer in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 08.03.2010 and until further orders.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(1)/2010-I—The president is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of appointment
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Chetan Kumar	08.02.2010
2.	Sharanappa S.	08.03.2010
3.	Rajarajan, D.	05.03.2010
4.	M. Mohamed Nagoor Meeran	10.06.2010

N PATTABHI RAMAN, Under Secy.

The 30th July 2010

No. 5/1(1)/2010-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 05.02.2010 and until further orders :—

Sl. No.	Name
1	2
	Shri/Smt./Kum.
1.	Vijesh T.V.
2.	Pottety Koteswara Reddy

1	2
3.	Shri/Smt./Kum. Xavier Ronaled
4.	Boul Chandra Garai
5.	Rupesh
6.	Ranjith. V.
7.	Avadhesh Singh
8.	Praveen Kumar
9.	Md. Tafsir
10.	Rissen Alfonso Joseph
11.	Sanat Kumar Panda
12.	Naga Manjusha J.
13.	Kinshuk Gupta
14.	Ashritha M.S.
15.	Vishwa Prakash A.
16.	Poorani M.
17.	Sabari Sreekumar
18.	Amitkumar Patil
19.	Avijit Mitra
20.	Siddhartha Jain D.N.
21.	Rakesh Racharla
22.	Raj Alexander Y.
23.	Phani Dinakar B.S.
24.	Rajat Shuvra Pramanik
25.	Prakash K.O.
26.	Rajiv Bhatia

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(2)/2010-I—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Scientist/Engineer in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space have relinquished the charge of the post mentioned against each with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of relief
1.	Shri Praveen Patel	Scientist/Engineer-SF	30.04.2010
2.	Shri Anic B. Vyas	Scientist/Engineer-SE	30.04.2010

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(2)/2010-I—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Scientists/Engineers and officers in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space have relinquished the charge of the post mentioned against each with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of relief
Shri/Smt./Kum.			
1.	K. Surya Prakasa Rao	Head, Purchase & Stores	28.02.2010
2.	Subramanian P.	Scientist/Engineer-SD	28.02.2010
3.	C.H. Venkateshaiah	Scientist/Engineer-SF	30.06.2010
4.	M.R. Suresh	Scientist/Engineer-SF	30.06.2010
5.	K.M.K. Gandhi	Assistant Catering Manager	30.06.2010

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(1)/2010-I—The President is pleased to appoint Dr. Naveen K. as Medical Officer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 11.02.2010 and until further orders.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(2)/2010-I—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri K.R. Bharath, Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 31.03.2010.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(2)/2010-I—The President is pleased to accept the technical resignation from service of Dr. Sudhakar Subudhi, Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 20.05.2010.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(2)/2010-I—Consequent on acceptance of Voluntary Retirement, Shri Mohanakrishnan, G., Scientist/Engineer-SG in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 31.12.2009.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

The 17th August 2010

No. 11/1(1)/2010-I—The President is pleased to appoint Shri C.H. Basavaraju as Deputy Secretary in the Department of Space, Bangalore in an officiating capacity with effect from the forenoon of 22.03.2010 and until further orders.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 9th August 2010

No. F. 6(2135)/2010-Admn.I—In pursuance of Department of Personnel & Training Communication No. 4/28/2010-EO(SM.I) dated 29th July, 2010, Shri Arvind Kumar Chugh, IAS (JH:74) has relinquished charge as Principal Adviser in the Planning Commission w.e.f. the forenoon of 4th August, 2010 to take up his new Assignment as Secretary, Ministry of Tribal Affairs.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 10th August 2010

No. F. 6 (2136)/2010-Adm.I.—Consequent upon her inclusion in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of CSS for the year 2010 (Part) *Vide* Department of Personnel & Training Office Order No. 4/3/2010-CS.1(D) dated 06.08.2010, the President is pleased to appoint Smt. Jeewan Sharma as Deputy Secretary on regular basis in Planning Commission w.e.f. 09.08.2010 (FN).

S. KESAVA IYER, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 13th August 2010

No. A-32013/2/2007-VSP(A)—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Jugal Kishore, Assistant Editor, in the Vidhi Sahitya Prakashan of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice, to officiate as Editor in the said Prakashan on promotion basis with effect from the forenoon of 9th August, 2010 and until further orders, in the Pay Band-3 with scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/-.

KULDEEP KUMAR, Director

No. A-32013/2/2007-VSP (A)—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri M. C. Pandey, Assistant Editor, in the Vidhi Sahitya Prakashan of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice, to officiate as Editor in the said Prakashan on promotion basis with effect from the forenoon of 9th August, 2010 and until further orders, in the

Pay Band-3 with scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/-.

KULDEEP SINGH, Director

The 19th August 2010

No. A-32013/1/2010-VSP (A)—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Aslam Khan, Sub-Editor, in the Vidhi Sahitya Prakashan of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice, to officiate as Assistant Editor in the said Prakashan on promotion basis with effect from the forenoon of 9th August, 2010 and until further orders, in the Pay Band-3 with scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/-.

KULDEEP SINGH, Director

No. A-32013/1/2010-VSP (A)—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Avinash Shukla, Sub-Editor, in the Vidhi Sahitya Prakashan of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice, to officiate as Assistant Editor in the said Prakashan on promotion basis with effect from the forenoon of 9th August, 2010 and until further orders, in the Pay Band-3 with scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/-.

KULDEEP SINGH, Director

New Delhi, the 11th August 2010

No. A-12025/3/2009-Admn.I (L.D.)—The President is pleased to appoint Shri Sunil Ranjan, Superintendent (Translation) in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to officiate as Assistant Legislative Counsel (Hindi) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in the said Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of three months with effect from the forenoon of 9th August, 2010 and until further orders.

2. This ad hoc appointment will not bestow on Shri Sunil Ranjan any claims for regular appointment whatsoever to the grade of Assistant Legislative Counsel (Hindi) nor the ad hoc service rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 23rd August 2010

No. I-18012/4/2008-IPS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation)

Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service allocated to the Cadre of Uttar Pradesh in the Indian Police Service, with effect from the dates indicated against each :—

S. No.	Name of the Officers	Date of Confirmation
	S/Shri	
1.	Shitla Prasad Misra	30.09.1999
2.	Mukesh Shukla	30.09.1999
3.	Rajendra Pratap Singh	30.09.1999
4.	Yogendra Kumar Pachauri	30.09.1999
5.	Davendra Dutt Misra	30.09.1999
6.	Raj Singh Rathore	08.06.2001
7.	Uma Nath Singh	08.06.2001
8.	Pradeep Chandra	08.06.2001
9.	Anil Kumar	08.06.2001
10.	K. S. Pippil	08.06.2001
11.	Sheodan Singh	08.06.2001
12.	Smt. Purnima Singh	08.06.2001
13.	Akshay Kumar Singh	08.06.2001
14.	Shubh Narain Upadhyay	24.05.2003

The confirmation of officers mentioned at Sl. No. 1 to 5 is subject to the final outcome of O.A. No. 160/98 filed by Shri Saryu Prasad Sonkar & Ors. in CAT, Lucknow Bench, at Sl. No. 6 to 14 is subject to the final outcome of WP No. 1414 (SB) of 1999 filed by UOI Vs. Pradeep Charnda & Others before the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench.

O. S. ASHOK, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 12th August 2010

No. 13017/24/2010-AIS-I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Bihar and Uttarakhand the Central Government hereby transfers Dr. Neeraj Kharwal, IAS (BH : 07) from Bihar cadre to Uttarakhand cadre on the ground of marriage to Ms. Jyoti Yadav, IAS (UK : 09).

R. K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 30th July 2010

No. 76 : (F. No. A-19012/10/2010-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Nandan Srivastava,

IRS (C & CE : 93) as Director in the Department of Revenue for a period of five years with effect from 29.07.2010 (FN) or until further orders. whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 2nd August 2010

No. 77 : (F. No. A-38013/7/2010-Ad.I)—Shri Chandra Prakash Saxena, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue, retired from Government Service on 31st July, 2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 78 : (F. No. A-38013/6/2010-Ad.I)—Shri S. S. Nirwan, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer (Ad-hoc) in the Department of Revenue, retired from Government Service on 31st July, 2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 5th August 2010

No. 79 : (F. No. A-38013/9/2010-Ad.I)—Smt. Manju Chandra, an officer of the CSS, posted as Section Officer in the Department of Revenue voluntarily retired from Government Service on 2nd August, 2010 (FN), under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 6th August 2010

No. 80 : (F. No. A-19012/11/2010-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Anshu Prakash, IRS (IT : 94) as Director in the Department of Revenue for a period of five years with effect from 29.07.2010 (FN) or until further orders. whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 11th August 2010

No. (F. No. 26/1/2008-Ad. IC)—Shri A. T. Thomas, Deputy Registrar, Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal voluntarily retired from Government Service on 3rd August, 2010 (FN) under Rule 48A (1) of the CCS (Pension), 1972.

VICTOR JAMES, Under Secy.

The 16th August 2010

No. (F. No. A-38013/1/2010-Ad. IC (CESTAT)—Smt. Kranti Rajesh Rathi, Assistant Registrar, Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal voluntarily retired from Government Service on 6th August, 2010 (FN) under Rule 48A (1) of the CCS (Pension), 1972.

VICTOR JAMES, Under Secy.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 6th August 2010

No. 9 of 2010 (F. No. A-32012/1/2010-Ad. VI)—In partial modification of this Department's notification No. 14 of 2006 (F. No. 32012/1/2005-Ad. VI) dated 19th September, 2006, Shri Pradeep Kumar Singh (00707) is hereby promoted to officiate as Deputy Commissioner of Income Tax (Senior Scale) in the Pay Scale of Rs. 10,000-325-15,200/- (Pre-Revised) w.e.f. 01.01.2005 instead of 01.01.2006.

This issue in compliance of the order of the Hon'ble CAT, Principal Bench, New Delhi dated 30.6.2009 in O. A. No. 2358 of 2008. The promotion of Shri Pradeep Kumar Singh shall be subject to final outcome of the Writ Petition filed by the Department of Revenue (CBDT) before the Hon'ble High Court of Delhi.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 15th July 2010

No. A-19011/7/2010-Admn. II—The President is pleased to appoint Shri Bimal Julka, IAS (MP : 79), as Director General, Directorate of Currency under the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance in the rank and pay of Additional Secretary with effect from the afternoon of 12th July, 2010 until further orders.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

The 11th August 2010

No. A-19011/18/2010-Admn. II—The President is pleased to appoint Shri Vijay Singh Chauhan, IRS (C&CE : 92), as Director, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from the forenoon of 9th August, 2010 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

No. A-12011/07/2008-Admn. II—The President is pleased to appoint Shri Gopilal Mannewar, a regular Private Secretary

of the CSSS Cadre of Ministry of Agriculture to the post of Principal Private Secretary in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + 6,600/- (G. P.) in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on ad-hoc basis w.e.f. 30.7.2010 (AN) for the period upto 31.12.2010 or till the posts are filled up on regular basis or till further order, whichever is earlier.

The ad-hoc promotion of Shri Gopilal Mannewar shall not confer on him any right to continue indefinitely in the post of PPS or to claim seniority in that post.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 19th August 2010

No. 7/1/2009-DRT—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993), the Central Government has appointed Shri Harcharan Singh as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal-II, Chandigarh, for a period of five years with effect from 16th August, 2010 (F.N.) or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

AMRIK SINGH, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 11th August 2010

No. A-12026/8/2010-Ad. I—On attaining the age of superannuation, Shri M. M. Chopra, Director in the Ministry of Finance, Department of Expenditure stands retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st July, 2010.

S. KRISHNAMOORTHY, Under Secy.

New Delhi, the 13th August 2010

No. A-11019/2/2010-EG—The President is pleased to appoint Shri Suryaprasad Parshuram Raval of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer on deputation basis in the office of the Accountant General (A&E), Gujarat, Rajkot, in the scale of Rs. 15,600—39,100/- (Grade Pay Rs. 6,600/-) with effect from 05.07.2010 (F.N.) and until further orders.

ANIL SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 12th August 2010

No. PFG (969)/10-Ad. I—The President is pleased to appoint Dr. T. V. Somanathan, IAS (TN : 87) as Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Corporate

Affairs, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- for a period of five years with effect from the afternoon of 6th August, 2010 upto 6th August, 2015 or until further orders, whichever event takes place earlier.

J. S. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 4th August 2010

No. 32 (A-19011/23/2010-E.I.)—The President is pleased to appoint Shri J. S. Deepak, IAS (UP : 82) as Joint Secretary, in the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay Rs. 10,000/-, with effect from the afternoon of 3rd August, 2010 on lateral shift basis for his balance central deputation tenure of five years i.e., upto 08.04.2013 or until further orders, whichever event takes place earlier.

ANURAG SAXENA, Dir.

No. 33 (A-19011/24/2010-E.I.)—The President is pleased to appoint Shri Rajat Sachar as Additional Economic Adviser, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay Rs. 8,700/-, in the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, with effect from the afternoon of 2nd August, 2010 and until further orders.

ANURAG SAXENA, Dir.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 23rd August 2010

No. A-12011/2/2010-Estt.—In pursuance of DOP&T's Order No. 3/4/2010-CS.I(D) dated 26th July, 2010, the President is pleased to appoint Shri T. K. Murugan, Deputy Secretary of CSS in the Department of Commerce as Director of CSS in the Department of Consumer Affairs on regular basis in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of 19th August, 2010 and until further orders.

PREMA BHATT, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 20th July 2010

No. A-12025/09/2009-CHS. VI—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Kuldeep Singh as Dental Surgeon in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation and to post him as Dental Surgeon at Central

Government Health Scheme, Bikaner House, New Delhi with effect from the forenoon of 7th January, 2010 and until further orders.

PAWAN KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 18th August 2010

No. A-12025/16/2008-CHS. III—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Vijai Kumar Chaudhary to the post of Public Health Specialist Grade II (Junior Scale) in the Public Health Sub-Cadre of Central Health Service, on probation, with effect from 05.03.2009 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

New Delhi-110108, the 20th August 2010

No. A-12025/4/2008-CHS. I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rakesh N. Desai to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of Pay of Rs. 15,600—39,100 + 5,400 (PB-3) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 28.05.2009 until further orders. Dr. Rakesh N. Desai is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Rakesh N. Desai shall be on probation for two years from the date of appointment.

O. P. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 18th August 2010

No. 12-9/2009-M&T (Admn.)—The President is pleased to appoint Shri M. K. Vishwakarma, Shri C. R. Lohi and Shri A. N. Meshram as Director (G.C.S Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial), Farm Machinery Training and Testing Institute, by promotion on regular basis in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from 23.07.2010.

B. B. BHAGAT, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF LAND RESOURCES)

New Delhi-110011, the 18th August 2010

No. A-18014/4/2010-Admn.—In pursuance of Department of Official Language's Office Order No. 5/1/2010-O.L. (Services) dated 25th June, 2010, Shri M. K. Goel, Assistant Director (Official Language), who has been transferred from Planning Commission, has assumed charge of the post of Assistant Director (Official Language) in PB-3 (Rs. 15,600—

39,100/-) with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, with effect from 6th July, 2010.

ANOOP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi, the 12th August 2010

No. PF/A/31-Admn.—The President is pleased to place Shri Anil Kumar Varma as Deputy Secretary on regular basis w.e.f. 1st July, 2003, consequent upon the inclusion of his name in the Selection Grade of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2003 vide Department of Personnel & Training's OM No. 9/7/2009-CS. I(D) dated the 3rd August, 2010. Shri Anil Kumar Varma superannuated from Government service on 30th April, 2007.

RAJIVE SABHARWAL, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 12th August 2010

No. 6289/NIC/2010-Adm-II—Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Miss Monalisa Das (Emp. Code No. 6289), from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. 'SB', National Informatics Centre—Assam State Centre, Guwahati, with effect from the afternoon of 12.07.2010 and she is relieved of her duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Dy. Dir. (Adm.-II)

The 18th August 2010

No. 2274/NIC/2008-Adm.-II—The President is pleased to accept the resignation of Smt. Namrata Gupta, (Emp. Code No. 2274), from the post of Scientist 'B', National Informatics Centre—Hqrs., New Delhi, with effect from the afternoon of 30.05.2008 treating the period of her absence from 01.02.2000 to 30.05.2008 as dies-non. She is relieved of her duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Dy. Dir. (Adm.-II)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 18th August 2010

No. ERB-I/2007/10/4—Shri A. K. Goyal, Member Staff, Railway Board and ex-Officio Secretary to Government of India retired voluntarily from service w.e.f. 09.08.2010 (FN).

V. K. GUPTA, Secy.
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 12th August 2010

No. LH-21013/2/2009-SL—Consequent upon his selection for the post of Executive Officer in Directorate General of Lighthouses and Lightships, Shri Vikas Srivastava, Assistant in the Ministry of Shipping is hereby appointed as Executive Officer on deputation basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- in the Grade Pay of Rs. 4,600/- in the Directorate General of Lighthouses and Lightships with effect from the forenoon of 6th November, 2009, until further orders.

S. K. GOSWAMI, Under Secy.

New Delhi-110001, the 13th August 2010

No. A-12023/1/2009-Estt.—In pursuance of DOPT's O.M. No. 23/4/2010-EO (MM-I) dated 21.07.2010 and Ministry of Environment & Forests, Office Order No. A-19011/2/2009-P.II dated 30.07.2010, the President is pleased to appoint Shri N. Muruganandam, IAS (TN : 1991) as Private Secretary to the Minister of Shipping (Sh. G. K. Vasan), in the Pay Band of PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/- (Grade Pay), w.e.f. 02.08.2010 (F.N.) till he ceases to function as Private Secretary to the Minister of Shipping or until further orders whichever is earlier. His tenure at the Centre shall be w.e.f. 01.10.2009.

ABHIJIT BAKSHI, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 31st July 2010

No. A-19011/8/2007-E-I—On attaining the age of superannuation, Shri Brahm Dutt, IAS (KN : 73) Secretary, Ministry of Road Transport & Highways has retired from Government Service on 31.07.2010 (A.N.).

H. R. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 13th August 2010

No. 2/3/2009-Admn. I—The President is pleased to appoint Shri Anindya Sundar Parira as Scientist 'B' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in a temporary capacity in the Ministry of New and Renewable Energy with effect from the forenoon of 12th August, 2010 and until further orders.

SURESH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 16th August 2010

No. 12/2010 (F.N. 22/672/2010-Admn.)—The President is pleased to appoint Shri G. Mohan Kumar, IAS (OR : 79) as

Additional Secretary in the Ministry of Water Resources in the pay scale of Rs. 67,000/- (with annual increment @ 3%)-79,000/- with effect from the forenoon of 16.08.2010.

D. K. PALIWAL, Under Secy.

New Delhi, the 18th August 2010

No. 13/2010 (F. No. 25/2(12)/2009-E.I)—On the results of the Engineering Services Examination, 2008 the President is pleased to appoint Shri Kuldeep Kumar Singh to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the PB-3 pay scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 02.06.2010(FN).

Shri Kuldeep Kumar Singh will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 26th July 2010

No. 3/1/2010-Admn. II—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2006 against Seniority Quota and their nomination to the CSS Cadre of the Ministry of Information & Broadcasting vide DoP&T's O. M. No. 6/1/2010-CS.I (S) dated 25.02.2010, the President is pleased to appoint the following regular Assistants of CSS cadre of this Ministry, who are presently working as Section Officer on ad-hoc basis, as Section Officers on regular basis in Ministry of Information & Broadcasting with effect from 01.07.2006 and they shall continue to work in their present place of posting as mentioned against each of them :—

S. No.	Name	Office where posted
1.	Shri Kamlesh Kumar	DG : AIR
2.	Shri Karan Singh	DG : DD

S. S. BEDI, Under Secy.

The 27th July 2010

No. 5/3/2007-Admn. II—The President is pleased to appoint Shri K. S. Rejimon, I.S.S. (98) as Deputy Secretary under Central Staffing Scheme in the Ministry of Information & Broadcasting in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- in Pay Band-3, with effect from the afternoon of 09.07.2010 for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier.

S. S. BEDI, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 9th August 2010

No. A-12025/01/2007-Adm.I (Vol.II)—The President is pleased to appoint the undermentioned regular Section Officers of CSS to Grade-I (Under Secretary) of the Cadre purely on ad-hoc basis and until further orders :—

Sl. No.	Name of Officer	CSL No.	Date of Appointment as Under Secretary (Ad-hoc)
1.	Sh. N. Sreekumar	6295	09.06.2010 (F.N.)
2.	Sh. Anjani Kumar Thakur	6298	30.07.2010 (A.N.)
3.	Smt. Nisha Gaur	6391	03.06.2010 (F.N.)
4.	Sh. Prabhakar Mishra	6520	07.06.2010 (F.N.)
5.	Sh. Naresh Jaiswal	6672	08.06.2010 (F.N.)
6.	Sh. Johan Topno	6754	07.06.2010 (F.N.)

PRADEEP GAUR, Under Secy.